

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 जनवरी 2024-पौष 14, शक 1945

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2024

फा. क्रमांक 07-1-2024-इक्कीस-ब(दो).- राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रदेश के कटनी, नरसिंहपुर, बैतूल, भोपाल, रतलाम एवं धार जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव संलग्न सूची के अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों को नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2023 का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां अधिसूचना जारी होने के दिनांक से मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक के लिए प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
धर्मपाल सिंह सिवाच, सचिव.

## कार्यालय कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला कटनी मध्यप्रदेश

क्र.-स्था.निर्वा.-2023-09

कटनी, दिनांक 20 दिसम्बर 2023

### //आदेश//

नगरीय निकासों एवं वि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2023 की दृष्टिकोण रखते हुए मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान केन्द्रों का पौष्टिक स्थापन करना, इलेक्ट्रिकीटी नैपिन, मतदान केन्द्रों के कट चार्ट का स्थापन करना एवं नक्शे पर दर्शाये गये स्टा न्यबहारीक एवं इनकी पहुँच और सुव्यवस्था, मतदान केन्द्र के बुनियादी ढाँचे पर कवरवर्क सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यदि एक ही परिसर/भवन में एकत्रित मतदान केन्द्र हैं तो उसके संबंध में जानकारी/सिद्धांत एरियल/कनेक्टिविटी की जानकारी एकत्रित करना तथा मतदान दलों को मतदान केन्द्र तक सुरक्षित पहुँचाने एवं मतदान पश्चात् पूर्ण सुस्था के साथ ईवीएम/व्हीव्हीपीएम की मर्यादा/मर्यादा पंजी नहित मतदान दलों को विकासकर्म सुव्यवस्था तक जाने आदि दायित्वों के निर्वहन हेतु निम्नलिखित विवरण अनुसार एवढ द्वारा सेक्टर अधिकार निदुक्त किने जाते हैं:-

### (वि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2023)

क्र.सं.	विकासकर्म का नाम	सेक्टर अधिकारी का नाम एवं पदनाम	ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम	कुल म. केन्द्रों की संख्या	मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम	
1	डीमरखेड़ा	श्री नरेन्द्र कुमार अडवाला सहायक दंत्री लोक निर्माण विभाग 9424618058	जिला निपरिया	06	54	माध्यमिक शाला भवन जिला निपरिया कमरा नं. 1
2					55	माध्यमिक शाला भवन जिला निपरिया कमरा नं. 2
3					56	माध्यमिक शाला भवन जिला निपरिया कमरा नं. 3
4					57	हाई स्कूल जिला निपरिया कमरा नं. 1
5					58	प्राथमिक शाला भवन जिला मठमोना
6					59	माध्यमिक शाला भवन दिवा मठ
7		श्री विनोद कुमार चौबे, सहायक दंत्री, लोक निर्माण विभाग कटनी 6260334761	जिरी	04	240	प्राथमिक शाला जिरी
8					241	माध्यमिक शाला जिरी
9					242	प्राथमिक शाला ब्रेहरी
10					243	प्राथमिक शाला कटरा
11		श्री विकल्प कुमार पटेल, सहायक दंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग स्त्रीमनाबाद 9584586056	भमका	03	232	पंचायत भवन भमका
12					233	प्राथमिक शाला परसेल
13					234	माध्यमिक शाला बिजौरी
14			अंतर्वेद	01	88	प्राथमिक शाला अंतर्वेद कमरा नंबर 01
15			बछी	01	104	माध्यमिक शाला बछी अतिरिक्त कमरा क्रमांक 01
16			छतर सिंहुडी	01	53	प्राथमिक शाला भवन उमरसानी
17			छान	01	81	माध्यमिक शाला भवन छाना

क्र.सं.	केंद्र का नाम	सेक्टर अधिकारी का नाम एवं पदनाम	ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम	कुल म. केन्द्रों की संख्या	मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम	
20	बिचवराजवगड	श्री इंद्रपाल साकेत उपयंत्री ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा संभाग कटनी 6261844113	टिकरिया	01	46	श्री प्राथमिक शाला भवन हरिप्रसाद मोहम्मदा सिधवार
			रजरवारा नं2	01	53	पंचायत भवन रजरवारा नंबर 2
			देवती मझगंवा	01	146	प्रा०शाला भवन देवती मझगंवा
			देवराखुदं	01	213	प्रा०शाला भवन भडिया मोहम्मदा देवराखुदं
22	कटनी	श्री एस के खर्द, सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा संभाग कटनी 9424395798	लखापतेरी	01	5	प्रा०शाला भवन लखापतेरी
			भनपुरा नं 01	01	52	प्रा०शाला भवन शिवराजपुर
24	बडवारा	श्री विनोद कुमार चौधे, सहायक यंत्री लोक निर्माण विभाग कटनी 6260334761	विलायतकला	01	263	प्रा०शाला भवन अतिरिक्त कक्ष विलायतकला
			सुडडी	01	185	प्रा०शाला भवन सुडडी
26	रीडी	श्री आर०के० जैन, सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा संभाग कटनी 9893336778	विरुहली	01	83	प्रा०शाला भवन विरुहली अतिरिक्त कक्ष क्र 03
रिजर्व दल						
01	श्री एस०एस० मरावी, विकाखण्ड शिक्षा अधिकारी वीमरखेडा जिला कटनी					

क्र.सं.	नगरीय निकाय का नाम	सेक्टर अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वार्ड का नाम	कुल म. केन्द्रों की संख्या	मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम
27	नगर निगम कटनी	श्री ए सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभागीय कार्यालय जनपद पंचायत कटनी 9425844689	महात्मा गांधी वार्ड नं0 9	04	के0एस0 कनकने प्राथमिक शाला क्रमांक नं0 1
					के0एस0 कनकने प्राथमिक शाला क्रमांक नं0 2
					के0एस0 कनकने प्राथमिक शाला क्रमांक नं0 3
					के0एस0 कनकने प्राथमिक शाला क्रमांक नं0 4
31	नगर निगम कटनी	श्री सुधांशु तिवारी, सहायक यंत्री, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कटनी, 9575643998	राजेन्द्र प्रसाद वार्ड नं0 36	04	उच्चतर माध्यमिक शाला ओ0एफ0 कटनी कक्ष क्रमांक 1
					उच्चतर माध्यमिक शाला ओ0एफ0 कटनी अतिरिक्त कक्ष
					उच्चतर माध्यमिक शाला ओ0एफ0 कटनी कक्ष क्रमांक 2
					उच्चतर माध्यमिक शाला ओ0एफ0 कटनी कक्ष क्रमांक 3
रिजर्व दल					
01	श्री प्रताप सिंह लोधी, सहायक, यंत्री म प्र गृह निर्माण एवं अधीनरचना विकास मंडल कटनी 9406912275				

उपरोक्त नियुक्त सेक्टर ऑफिसर मतदान पूर्व भ्रमण के उपरांत आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं से संबंधित जानकारी स. न. रिटर्निंग ऑफिसर को देना सुनिश्चित करेंगे तथा राज्य निर्वाचन आयोग / जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से समन्वय स्थापित कर स्थानीय उप निर्वाचन प्रक्रिया को निर्विघ्न सम्पन्न कराने के लिये पूर्णतः जिम्मेदार होंगे। सेक्टर अधिकारी मतदान दलों के प्रशिक्षण में उपस्थित रहेंगे।

आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

  
(अवि प्रसाद)

कलेक्टर  
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

## कार्यालय कलेक्टर (स्थानीय निर्वाचन), नरसिंहपुर,

क्र.-1288-स्था.निर्वा.-2023

नरसिंहपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2023

**आदेश**

नगरपालिका परिषद करेली के वार्ड क्रमांक 5 गनेश वार्ड पार्श्व घट के उप निर्वाचन (उत्तरार्द्ध) 2023 के लिये निम्नानुसार अधिकारियों को सेक्टर आर्फीसर नियुक्त किया जाता है।

सेक्टर क्र./नाम	सेक्टर आर्फीसर का नाम एवं पद	मतदान केन्द्र क्रमांक व नाम	कुल मतदान केन्द्र
गनेश वार्ड घट करेली	श्री निखलेश द्विवेदी सहायक यंत्री	10- शा0 उ0मा0विधा0का पूर्वी कक्ष 11- शा0 उ0मा0विधा0का पश्चिमी कक्ष 12- शा0 उ0मा0विधा0का अति0 कक्ष	03
विजय	श्री आदित्य मोहन पटेल, परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास परियोजना करेली		

इस आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

- नोट :-**
1. रिटनिंग अधिकारी उक्त सेक्टर अधिकारियों को अपने स्तर से ट्रेनिंग प्रदान करावे।
  2. सेक्टर अधिकारी अपने सेक्टर अंतर्गत समस्त मतदान केन्द्रों की व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होंगे।
  3. संबंधित सेक्टर अधिकारी, निर्वाचन संबंधी अधिसूचना जारी होने के दिनांक से निर्वाचन पूर्व तक काम से कम तीन बार संबंधित मतदान केन्द्रों का दौरा कर निर्वाचन हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे एवं आवश्यकतानुसार सुधार कर संबंधित पंचायतों व सहायक विभागों से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
  4. उक्त सेक्टर अधिकारी मतदान केन्द्र का भौतिक स्थापन कर निर्धारित प्रारूप में जानकारी रिटनिंग अधिकारी एवं इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे।
  5. रुढ़ चार्ट का स्थापन।
  6. चलनेवाला एवं चक्केदार मतदान केन्द्रों का बिन्हांकन।
  7. सेक्टर अधिकारी स्वयं के विभागीय वाहन/विभाग में उपलब्ध शासकीय या अनुबंधित वाहन से भ्रमण करेंगे। जिन सेक्टर अधिकारियों के पास स्वयं का या विभाग का वाहन उपलब्ध नहीं है वे अपने रिटनिंग अधिकारी को सूचित कर भ्रमण हेतु वाहन प्राप्त कर भ्रमण करेंगे। उपरोक्त दल आंबटिल मतदान केन्द्रों का भ्रमण तीन दिवस में अनिवार्य रूप से किया जाकर वांछित जानकारी रिटनिंग/सहायक रिटनिंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

कलेक्टर एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी  
स्थानीय निर्वाचन, नरसिंहपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) बैतूल, मध्यप्रदेश

क्र.-576-नपा.उप...निर्वा.-2023

बैतूल, दिनांक 27 दिसम्बर 2023

कमरा सदसित प्रदा का अवलोकन करने का क्रम करे। समीक्षित निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पोल से मजसुदात्मक परिवर्तन सारणी के तहत निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन सम्पन्न होता है। निर्वाचन सम्पन्न करने जाते हेतु नियुक्त सहायक सहायक के मजसुदात्मक परिवर्तन की शक्तों प्रदान करने हेतु प्रस्ताव विन्यास प्रेषित है।

क्र.	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	सम्पन्न
1	श्री प्रवेश बामनिया	अनुविभागीय अधिकारी जल ससाधन विभाग शाहपुर
2	श्री अमित दुबे (रिजर्व)	सहायक सत्री, जनपद मन्दायत शाहपुर

संयुक्त कलेक्टर एवं  
उप जिला निर्वाचन अधिकारी  
(स्थानीय निर्वाचन) बैतूल

**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन शाखा) जिला भोपाल, मध्यप्रदेश**

क्र.-790-स्था.निर्वा.-2023

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2023

// संशोधित आदेश //


सचिव म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-53/एन. एन-02/2023/पॉच/3846 दिनांक 06.12.2023 के द्वारा नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध) का कार्यक्रम प्राप्त हुआ है। भोपाल जिले में वार्ड क्रमांक 41 के पार्षद पद का निर्वाचन सम्पन्न कराया जाना है। अतः नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध) के संचालन हेतु निम्नानुसार वर्णित तालिका के कॉलम 2 में वर्णित अधिकारियों को तालिका के कॉलम नंबर 6 में वर्णित सेक्टर के लिए दिनांक 05/01/2024 को मतदान समाप्ति तक के लिए सेक्टर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। नियुक्त सेक्टर अधिकारी म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों अनुसार ड्यूटी का निर्वहन करेंगे।

सेक्टर अधिकारी :

स.क्र.	सेक्टर अधिकारी का नाम	पद	कार्यालय का नाम	मो.नंबर	सेक्टर क्रमांक	आबंटित मतदान केन्द्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	राजेश रायकवार	कार्यपालन यंत्री	पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एफको	9826065524	1	1095,1096,1097, 1098,1099,1100
2	राजेश मिश्रा	कार्यपालन यंत्री	पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एफको	9179218282	2	1106,1107,1108, 1109,1110,1111, 1112,1113,1114
3	एम.के. पालीवाल	उप संचालक	मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग बोधी भोपाल	9424050155	3	1092,1093,1094, 1103,1105,1090
4	रमेश कुमार केवट	सहायक संचालक	संचालनालय तकनीकी शिक्षा भोपाल	8120165654	4	1088,1104,1089, 1091,1101,1102

रिजर्व दल :

स.क्र.	सेक्टर अधिकारी का नाम	पद	कार्यालय का नाम	मो.नंबर	सेक्टर क्रमांक	आबंटित मतदान केन्द्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	डॉ. शशांक झा	आयुर्वेद विशेषज्ञ	आयुर्वेद चिकित्सालय शिवाजी नगर	7748860112	रिजर्व	रिजर्व

  
 कलेक्टर  
 एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
 जिला भोपाल

**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन जिला अधिकारी रतलाम, मध्यप्रदेश**

क्र.-301-स्था.निर्वा.-2023

रतलाम, दिनांक 26 दिसम्बर 2023

म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग भाषण क्र पत्र क्र एफ-53/एनएन-02/2023/पाव/3245 दि 06.12.2023 के क्रम में नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्ध) के क्रम में नगर पालिक निगम रतलाम के वार्ड क्र 33 जगजीवनराम वार्ड के पार्षद के निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष व शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराय जाने तथा कानून एवं व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने के लिये और चुनाव के पूर्व तथा चुनाव के दौरान असाधारण एवं आपातकालीन स्थिति पर नियंत्रण के लिये यथासमय आवश्यक प्रतिवधात्मक कार्रवाही करने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को नाम के समक्ष उल्लेखित नगरीय निकाय के लिये सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किया जाता है।

नियोजित अधिकारियों को उनके श्रेणी अर्थात् मादान कर्मी का आवंटन संबंधित रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किया जायेगा तथा म0प्र0 निर्वाचन आयोग द्वारा विभाग कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां दी जायेगी।

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	विभाग का नाम	संबंधित क्षेत्र	टिप्पणी
		नगर पालिक निगम रतलाम		
1	श्री व्ही.के. गुप्ता उपयंत्री 9425103079	ग्रामीण गाँवकी सेवा रतलाम	नपानि रतलाम	
2	श्री सुमित सिसौदिया उपयंत्री 8224881301	ग्रामीण गाँवकी सेवा रतलाम	नपानि रतलाम	

उक्त नियोजित सेक्टर ऑफिसर के द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य एवं दायित्वों से संबंधित दिशा-निर्देश पुस्तिका इस आदेश के संलग्न हैं। तदनुसार संबंधित रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के दिशा निर्देश तथा म0प्र0 निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन की कार्यवाही अमल में लाई जावे।  
संलग्न-उक्तानुसार।

(मास्कर साक्षात्कार)  
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
(स्थानीय निर्वाचन)  
जिला रतलाम म0प्र0

**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला धार, मध्यप्रदेश**

क्र.-1057-न.नि.निर्वा.निर्वा. 2023 विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान कि आजादि संक्र 26 दिसम्बर 2023 नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्ध) भाषण

क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	समय आवंटन का नाम	संबंधित क्षेत्र	टिप्पणी
1	श्री सुमित सिसौदिया उपयंत्री 8224881301	उपयंत्री	ग्रामीण गाँवकी सेवा रतलाम	कार्यपालिक	रतलाम	नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्ध) भाषण
2	श्री सुमित सिसौदिया उपयंत्री 8224881301	उपयंत्री	ग्रामीण गाँवकी सेवा रतलाम	कार्यपालिक	रतलाम	नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्ध) भाषण
3	श्री सुमित सिसौदिया उपयंत्री 8224881301	उपयंत्री	ग्रामीण गाँवकी सेवा रतलाम	कार्यपालिक	रतलाम	नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्ध) भाषण
4	श्री सुमित सिसौदिया उपयंत्री 8224881301	उपयंत्री	ग्रामीण गाँवकी सेवा रतलाम	कार्यपालिक	रतलाम	नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्ध) भाषण
5	श्री सुमित सिसौदिया उपयंत्री 8224881301	उपयंत्री	ग्रामीण गाँवकी सेवा रतलाम	कार्यपालिक	रतलाम	नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्ध) भाषण

(मास्कर साक्षात्कार)  
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
(स्थानीय निर्वाचन) जिला धार